



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2019/कार्तिक 3, 1941

No. 637]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2019/KARTIKA 3, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2019

सं. 41/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 812(अ).—जहां कि इण्डोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "सेचूरेटेड कैटी एल्कोहल्स", जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक 2905 17, 2905 19, 3823 70 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में, नियामक प्राधिकरण ने अपने सनसेट रिव्यू के अंतिम परिणामों को अधिसूचना संख्या 14/51/2016-डीजीएडी, दिनांक 23 अप्रैल, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

- (i) विषयगत देशों से इन विषयगत वस्तुओं का भारत को निर्यात इनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया था, अतः उत्पाद की डंपिंग हुई;
- (ii) कुछ आयातों से घरेलू उद्योग को सारवान क्षति भी हुई है;

और विषयगत देशों में उत्पादित या आयातित विषयगत माल के भारत में आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की गयी है, जिससे घरेलू उद्योग को जो क्षति पहुँची है उसे दूर किया जा सके;

और जहाँ, नियामक प्राधिकरण की उक्त परिणामों के आधार पर विषयगत माल पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 28/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 मई, 2018 जिसे सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 25 मई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित करके केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है।

और जहाँ, मैसर्स पीटी. एनर्जी सेजाहटेरा मास (उत्पादक) इण्डोनेशिया मैसर्स सिनार्मस कैप्सा पीटीई लि. (निर्यातक), सिंगापुर के माध्यम से उनके द्वारा निर्यात किये गये विषयगत माल के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 की शर्तों की समीक्षा करने का अनुरोध किया था और नियामक प्राधिकरण ने अपने न्यू शिपर समीक्षा अधिसूचना सं. 7/38/2018-डीजीएडी, दिनांक 15 जनवरी, 2019 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1, में दिनांक 15 जनवरी, 2019 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें जब तक उक्त पक्षकारों द्वारा विषयगत माल के सभी निर्यातों के लिए अनुरोध की गयी समीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक अनंतिम आंकलन की सिफारिश की गयी है, जिसे सीमाशुल्क अधिसूचना 13/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 14 मार्च, 2019 जिसे सा.का.नि. सं. 2019 (अ), दिनांक 14 मार्च, 2019 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचित करवाया था।

और जहाँ, नियामक प्राधिकरण ने अपने अंतिम परिणामों को अधिसूचना संख्या 7/38/2018-डीजीटीआर, दिनांक 24 सितम्बर, 2019 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1, में दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें मैसर्स पीटी. एनर्जी सेजाहटेरा मास (उत्पादक) इण्डोनेशिया मैसर्स सिनार्मस कैप्सा पीटीई लि. (निर्यातक), सिंगापुर के द्वारा 'सेचूरेटेड कैटी एल्कोहल्स' के निर्यात/उत्पादन पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की गयी थी।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 28/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 मई, 2018 जिसे सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 25 मई, 2018 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इसमें और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

- (i) सारणी में क्रम सं. 12 और तत्संबंधी प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा, यथा:-

सारणी

"13	2905 17, 2905 19, या 3823, 70	सभी प्रकार के सेचूरेटेड कैटी एल्कोहल्स जिसमें केपराइल एल्कोहल्स (सी8) और डिकाइल एल्कोहल्स (सी10) और सी8 और सी10 का मिश्रण"	इण्डोनेशिया	सिंगापुर	पीटी. एनर्जी सेजाहटेरा मास	सिनार्मस सीईपीएसए पीटीई लि.	51.64	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
-----	--	---	-------------	----------	----------------------------------	-----------------------------------	-------	---------------	-----------------

- (ii) सारणी और उसमें दी गयी प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य से, अधिसूचना सं. 13/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 14 मार्च, 2019 के तहत किये गये सभी अनंतिम आंकलन का अंतिम आंकलन उपरोक्त सारणी में विशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत किया जाएगा।"

[फा. सं. 354/169/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 28/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 मई, 2018 जिसे सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 25 मई, 2018 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th October, 2019

No. 41 /2019-Customs (ADD)

G.S.R. 812(E).—Whereas, in the matter of import of ‘Saturated Fatty Alcohols’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-headings 2905 17, 2905 19, 3823, 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Indonesia, Malaysia and Thailand (hereinafter referred to as subject countries) and imported into India, the designated authority, in its sunset review final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 14/51/2016-DGAD, dated the 23th April, 2018, had come to the conclusion that-

- (i) the product under consideration exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product;
- (ii) some of the imports were also causing material injury to the domestic industry,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 28/2018-Customs (ADD), dated the 25th May, 2018, published, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 498(E), dated the 25th May, 2018;

And whereas, M/s. PT. Energi Sejahtera Mas (Producer) Indonesia through M/s. Sinarmas Cepca Pte Ltd (Exporter), Singapore, had requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, *vide* new shipper review notification No. 7/38/2018-DGAD, dated the 15th January, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15th January, 2019, had recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above mentioned parties till the completion of the review by it, which was notified *vide* enabling Customs notification No. 13/2019-Customs (ADD), dated the 14th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 219(E), dated the 14th March, 2019;

And whereas, the designated authority, *vide* its final findings notification No. 7/38/2018- DGTR, dated the 24th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th September, 2019, has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on ‘Saturated Fatty Alcohols’ exported/produced by M/s. PT. Energi Sejahtera Mas (Producer) Indonesia and through M/s. Sinarmas Cepca Pte Ltd (Exporter), Singapore.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28/2018-Customs (ADD), dated the 25th May, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 498(E), dated the 25th May, 2018, namely:-

In the said notification,

- (i) in the Table, after Serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely: -

“13.	2905 17, 2905 19 or 3823 70	All types of Saturated Fatty Alcohols excluding Capryl Alcohols (C8) and Decyl Alcohols (C10) and blends of C8 and C10”.	Indonesia	Singapore	PT. ENERGI SEJAHTERA MAS	Sinarmas CEPSA PTE. LTD	51.64	MT	USD
------	---	--	-----------	-----------	--------------------------------	-------------------------------	-------	----	-----

(ii) after the Table and the entries relating thereto, the following Explanation shall be inserted, namely: -

“**Explanation.**—For the purpose of this notification, all the provisional assessments made under notification No. 13/2019-Customs (ADD), dated the 14th March, 2019, shall be finally assessed under the entries specified in the above Table.”.

[F. No. 354/169/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 28/2018-Customs (ADD), dated the 25th May, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 498(E), dated the 25th May, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2019

सं. 42/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 813(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उप नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 219(अ), दिनांक 14 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 354/169/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2019

No. 42/2019-Customs (ADD)

G.S.R. 813(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2019-Customs (ADD), dated the 14th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 219(E), dated the 14th March, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/169/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.